MONIND LIMITED

Corp Office: Monnet House, 11 Masjid Moth Greater Kailash Part II, New Delhi-110048 (India)

Phones: +91-877-0344104

E-Mail: isc mind@monnetgroup.com; website: www.monnetgroup.com

E -mail / Online Upload Copy

MIND\CS\2022-23\MH\

January 19th, 2023

DGM-Dept. of Corporate Services BSE Ltd.

P. J. Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001 The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Ltd
7, Lyons Range,
Kolkata – 700 001

Scrip Code - 532078

SUB: Submission of Newspaper Advertisement giving prior intimation for the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company –Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herewith submit a copy of newspaper advertisement published for the shareholders of the Company, in the "The Financial Express" (English) and Rajexpress (Hindi) informing, inter alia, that:

- i) the Extra ordinary General Meeting ('AGM') of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday 07th February, 2022 at 03:30 p.m. through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM') without Physical presence of members at a common venue.
- ii) the Notice of the EGM has sent to all the members whose email addresses are registered with Company / Depository Participants (DPs) and requesting the members to upgrade their email addresses; and
- iii) the Company has arranged remote e-voting facility for the said EGM.

Kindly take the above on your record.

Thanking You

Yours faithfully, For MONIND LIMITED

PRIVA

1 Depths upon the Prival Priva

(PRIYA)

COMPANY SECRETARY

Regd. Off.: Block-7, Room No. 78, Deen Dayal Awas, Kabir Nagar Raipur, CT 492099

Ph.: (0771) 2324249, 2324209 Fax: 0771-2324049; **CIN:** L51103CT1982PLC009717

कासेला के गोल से ओपनिंग भैच में अर्जेंटीना विजयी

हॉकी विश्वकपः दक्षिण अफ्रीका को १-० से शिकस्त दी

भ्वनेश्वर। अर्जेंटीना ने एफआईएच पुरुष हॉकी विश्वकप 2023 के पहले मुकाबले में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। कलिंगा स्टेडियम पर खेले गये पूल-ए मुकाबले में माइको कार्सेला ने 43वें मिनट में विजेता टीम के लिए गौल किया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने तीन अंक अर्जित कर लिये हैं और वह अपने पल में पहले स्थान पर है। पिछले विश्व कप में सातवें स्थान पर रही अर्जेंटीना ने यहां अपने अभियान की आक्रामक शुरुआत की और शुरुआती मिनटों में ही दक्षिण अफ्रीका के गोल पर हमला किया। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने हालांकि इस प्रयास को नाकाम करके गेंद अपने कब्जे में कर ली। सेंजविजले न्यूबाने इसके बाद गेंद को लेकर अर्जेंटीना के डी में बढ़े लेकिन उसके रक्षण ने गेंद को बाहर धकेल दिया। अर्जेंटीना को मैच के दूसरे क्वार्टर में दो पेनल्टी मिलीं, हालांकि उन्हें बढ़त हासिल करने के लिये तीसरे क्वार्टर का इंतजार करना पड़ा। शुरुआती 30 मिनटों में कोई सफलता न मिलने के बाद भी अर्जेंटीना ने विपक्ष के गोलपोस्ट पर हमला करना जारी रखा। उन्हें इसका फायदा तब मिला जब 43वें मिनट में लुकस टोस्कानी के पास पर कासेला ने गोल दागा।

यूएसएआईडी का स्वच्छता उत्पादों को समर्थन, क्लेंस्टा को देगी राशि

नई दिल्ली। समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी युनाइटेड स्टेटस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट युएसएआईडी द्वारा समर्थित और आईपीई ग्लोबल द्वारा कार्यान्वित क्लेंस्टा को 1.5 करोड़ रुपए युएसडी 188529 देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 क्षेत्रों में और टीयर 1 शहरों के कमजोर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में किफायती स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच बढ़ाना है। हिमांशु सिक्का परियोजना निदेशक समृद्ध और मुख्य रणनीति और विविधीकरण अधिकारी आईपीई ग्लोबल ने इस साझेदारी के महत्व पर कहा, समृद्ध में हम कमजोर समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इन्नोवेशंस और मार्किट सोलंशन्स के विस्तार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंकुर वारिकु के साथ बुक क्लब लॉन्च

नई दिल्ली। अमेजन इंडिया ने सभी बुक प्रेमियों उत्साही रीडर्स और नए लोगों के लिए बुक क्लब लॉन्च किया है, जिससे वे हर महीने एक किताब को पढ सके और उस पर चर्चा कर सकें। द बुक क्लब को सबसे अधिक बिकनेवाली पुस्तकों डू एपिक शिट और गेट एपिक शिटडन के लेखक अंकूर वारिकु के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाएगा। अंकुर एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और भारत के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं। प्रज्ञा शर्मा, अमेजन इंडिया ने कहा, द बुक क्लब एक नई पहल है जिससे हम बुक पढ़ने के प्यार को वापस से जिंदा करना चाहते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इस तरह की यह पहली पेशकश है, जिसमें हम नए जमाने के लेखक और अंकूर वारिकू जैसे इंफ्लुएंसर के साथ पार्टरिशप कर उत्साहित हैं। अमेजन इंडिया बुक क्लब उन लोगों के लिए ऑनलाइन बुक क्लब है जो पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं।

📵 पश्चिम रेलवे – रतलाम

इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग

उपकरणों का प्रतिस्थापन की आपूर्ति,

स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग निविदा संख्या : SnT_RTM_W_23_01

दिनांक —10 / 01 / 2023, निम्न कार्य के लिए

मंडल रेल प्रबंधक (एसएंडटी) पश्चिम रेलवे

रतलाम के लिये ई–निविदाएँ आमंत्रित की

जाती है। **कार्य का नाम**ः रतलाम मंडल के नागदाभोपाल खंड पर कालीसिंध और बोलाई

स्टेशनों – पर पुराने इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग उपकरणों का प्रतिस्थापन की

आपर्ति. स्थापना. परीक्षण और कमीशनिंग। कार्य की अनुमानित लागत : ₹6,20,09,323.

57 / – (रूपर्ये छः करोड़ बीस लाख नौ हजार

तीन सो तेईस एवम सतावन पैसे मात्र)।

निविदा फार्म का मूल्य : शून्य । बयाना राशि : ₹4,60,100 / − । कार्य पूरा करने की अवधि : 12 (बारह) महीने । ई—निविदा जमा

करने के लिये बंद करने का समय एवं

दिनांक : दिनांक 09.02.2023 समय 15.00 बजे

दिनांक : दिनांक 09.02.2023 समय 15.30 बजे

के बाद। **वैधता** : निविदा खुलने की दिनांक से

60 दिन। यह टेंडर <u>https.//www.ireps.gov.in</u>

मंडल रेल प्रबंधक (संकेत व दूर संचार)

पश्चिम रेलवे, रतलाम

अलीसा हीली पाक के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज अलीसा हीली पिंडली में चोट के चलते पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की टी2-0 सीरीज से बाहर हो गई। हीली को भारत के हालिया दौरे में मैच में बल्लेबाजी करते वक्त पिंडली में चोट लगी थी। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अनुसार हीली दक्षिण अफ्रीका में अगले महीने खेले जाने वाले टी-20 विश्वकप के लिए उपलब्ध होंगी। वह चोट से उबरने की प्रक्रिया में टीम के साथ ही मौजूद रहेंगी। भारतीय दौरे पर स्थायी कप्तान मेग लानिंग की गैर-मौजूदगी में हीली ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। चौथे मुकाबले में चोटिल होने से उन्हें पांचवें टी-20 से बाहर बैठना पड़ा था। उनकी जगह ऑलराउंडर तालिया मैक्ग्रा ने चौथे और पांचवें दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी और बेथ मूनी ने कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। पाकिस्तान के विरुद्ध मैचों में भी मूनी विकेट कीपिंग करती दिखेंगी। इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया ने पाक के विरुद्ध सीरीज और विश्वकप के लिए दल की घोषणा की। जिसमें लानिंग का बतौर प्लेयर और कप्तान अगस्त 2022 के बाद लौटना सबसे बड़ी सुख़ी रही। लेग-स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम भी दल में लौटी हैं।

प्रवेश घोषणा प्रबंधन में रनातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि–व्यवसाय प्रबंधन) (पीजीडीएम-एबीएम, 23वां बैच)

सीसीएस एनआईएएम, जयपुर एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित बैच 2023–2025 के लिए प्रबंधन मे म्नातकोत्तर डिप्लोमा (एग्री–बिजनेस मैनेजमेंट) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रवेश के लिए न्युनतम योग्यता आईसीएआर/युजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबद्ध विज्ञान के कृषि या किसी अन्य विषय में रनातक की डिग्री है। पात्रता, चयन मानदंड आरक्षण, आवेदन पत्र, प्रवेश प्रक्रिया और प्रॉस्पेक्टस जैसे विवरण संस्थान की वेबसाइट www.ccsniam.gov.in पर उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार पीजीडीएम-एबीएम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कैट 2022 या सीएमएटी 2023 होना आवश्यक है।

आवेदन पत्र वेबसाइट <u>http://www.ccsniam.gov.in</u> से दिसंबर 2022 से डाउनलोड किया जा सकता है।

CBC 01375/12/0002/2223



ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झॉसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन **(ई-टेन्डरिगं)** के माध्यम से खुली निविद

| ई-निविदा सूचना संख्या | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (₹) | अमानत राशि (₹) |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|
| झाँसी-इन्जी | बैलेंस वर्क फॉर झाँसीः ईस्टः- रिप्लेसमेंट | ₹ | ₹ |
| मुख्यालय- 2023-08 | एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ़ मंगलोर टाइल्ड रुफ इन ईस्ट कॉलोनी एरिया, झाँसी। | 17248120.95 | 236300.00 |

निविदा बन्द होने की तिथि : 08.02.2023 at 15:00 hrs.

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि : 12 माह

• निविदा दिनांक 08.02.2023 को 15:00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। ●पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट <u>www.ireps.gov.in</u> पर देखें। 53/23 (ADM)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता मानिन्ड लिमटेड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड – बलरामपुर (छ.ग.)

E-mail: eebalram-phe-cg@nic.in निविदा क्रं. / 86 / ले.शा. / ज.जी.मि. / का.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2023 बलरामपुर,दिनांक 11.01.2023

ऑन लाईन द्वितीय निविदा आमंत्रण छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल प्रदाय योजना के

विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिशत दर फार्म "अ" में निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है

| सि. नि. क्र. | कार्य की अनुमानित लागत (फ.लाख में) | सि. नि. क्र. | कार्य की अनुमानित लागत (क.लाख में) | सि. नि. क्र. | कार्य की अनुमानित लागत (रू.लाख में) |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|
| 120431 | 114.70 | 120435 | 160.13 | 120439 | 152.22 |
| 120432 | 124.56 | 120436 | 234.46 | 120440 | 416.37 |
| 120433 | 143.87 | 120437 | 153.30 | 120441 | 226.46 |
| 120434 | 86.95 | 120438 | 96.15 | | |

निविदा एवं कार्य का विस्तृत विवरण यथा धरोहर राशि, बिड वैद्यता की तिथि, कार्य की अवधि, निविदाकार की श्रेणी, एवं काँयौँ तथा स्थल संबंधी जानकारी ऑन लाईन ई—प्रोक्युरमेंट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनाक 20.01.2023 से देखी जा सकती है तथा निविदा दिनाक 03 02.2023 तक बिंड डाली जा सकती है। निविदा में आगामी संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जावेंगे। अतः निविदाकार ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सतत् संपर्क में रहें। अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर लोक स्वाास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड बलरामपुर में देखे जा सकते है।

G-97568/5/22

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड—बलरामपुर (छ.ग.)

एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (राह्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना]

जबकि, अघोहस्ताक्षरकर्ता एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (शिडयुल्ड कॉर्मार्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का संपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रवत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सचना पत्र निम्नितिखत तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चंकाने के लिए कहा गया था।

| तालिकाक अनुसार विवासकर तालिका व साहा ए | उ विवस्त के नातर बुकान का लड़कर | 1141411 | |
|--|--|--|-------------------|
| ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या | धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि | | कब्जे की तारीख |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060120312211 देवीलाल भिलाला (ऋणी), बापू लाल बिलाला (सहऋणी) | 10-अक्टूबर-22 ₹ 5,32,192/- पांच लाख बत्तीस हजार एक सौ बानवे रूपये मात्र 10-अक्टूबर-22 तक | रिहायशी /व्यावसायिक संपत्ति भूमि /बिल्डिंग /स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायत पीएच नं. 60, वार्ड नं. 16, मकान नं. 208 सारंगपुर, राजगढ मप्र क्षेत्रफल 106 वर्गगज | 10-जनवरी-23 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060823427522 देवीलाल भिलाला (ऋणी), प्रिया भिलाला (सहऋणी), बापू लाल बिलाला (सहऋणी) | 10-अक्टूबर-22 ₹ 4,97,395/- चार लाख सतानवे हजार तीन सौ पिच्यानवे रूपये मात्र 10-अक्टूबर-22 तक | रिहायशी /व्यावसायिक संपत्ति भूमि /बिल्डिंग /स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 16, पीएच नं. 60, मकान नं. 208, ग्राम तलेनी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ, मप्र क्षेत्रफल 961 वर्ग फीट, पूर्वः अनोखीलाल का मकान, पश्चिमः रोड, उत्तरः रोड, दक्षिणः तेज सिंह पुष्पद का प्लॉट | 10-जनवरी-23 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060121602660 प्रफुल्ल नायक (ऋणी), दिनेश नायक (सहऋणी), श्रीमती रेशम बाई (सहऋणी), नारायण सिंह (सहऋणी), श्रीमती पपीता बाई (सहऋणी) | 10-अक्टूबर-22 ₹ 2,92,505/- दो लाख बानवे हजार पांच सौ पांच रूपये मात्र 10-अक्टूबर-22 तक | रिहायशी /व्यावसायिक संपत्ति भूमि /बिल्डिंग /स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 40, वार्ड नं. 18, गोपालपुरा, नगरपालिका परिषद, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ, मप्र क्षेत्रफल 455 वर्ग फीट, पूर्वै: अंतर बाई का मकान, पश्चिम: सोराम बाईं का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: पनो बाईं का मकान | 10-जनवरी-23 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060123179338 खुशी लाल (ऋणी), किरण देवी (सहऋणी), रामस्वरूप गुर्जर (सहऋणी) | 10-अक्टूबर-22 ₹ 4,80,986/- चार लाख अस्सी हजार नौ सौ छियासी रूपये मात्र 10-अक्टूबर-22 तक | रिहायशी ⁄ट्यावसायिक संपत्ति भूमि ∕बिल्डिंग ∕स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायत मकान नं. 115 वार्ड नं. 07 पीएच नं. 55 भूराखेडी राजगढ सारंगपुर मप्र क्षेत्रफल 322 वर्गगज | 10-जनवरी-23 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060715088624 प्रयागराव वराठी (ऋणी), श्रीमती अनिता वराठी (सहऋणी) | 14-िसतम्बर-22 ₹ 28,49,638/- अट्ठाईस लाख उनचास हजार छ: सौ अडतीस रूपये मात्र 12- सितम्बर-22 तक | रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित मौजा मोती वार्ड, बी नं. 287, मकान नं. 54/34, आर.नि.एम खसरा नं. 229/252, जिला बेतूल, मप्र, क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, पूर्वः बारसकर की भूमि, पश्चिमः कच्चरा रोड, उत्तरः 20 फीट कच्चा रोड, दक्षिणः विक्रेता की भूमि | 11-जनवरी-23 |
| (ऋण खाता संख्या) L9001060720307030 एवं L9001061121173772 विजय बूट हाउस (ऋणी), सुखदेव रॉय (सहऋणी), सविता रॉय (सहऋणी), अलका रॉय (सहऋणी) | 10-अक्टूबर-22 ₹ 46,07,530/- छियालीस लाख सात हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र एवं ₹ 7,55,525/- सात लाख पचपन हजार पांच सौ पच्चीस रूपये मात्र 10- अक्टूबर-22 तक | रिहायशी ⁄व्यावसायिक संपत्ति भूमि ∕बिल्डिंग ⁄स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के के सभी अभिन्न अंग स्थित नगर निगम पीएच नं. 44, खसरा नं. 220 ⁄20 बागदोना, बेतूल गोडाडूंगरी मप्र क्षेत्रफल 4951 वर्गगज | 11-जनवरी-23 |

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम २००२ के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनयम की धारा 1.3 की उपधारा (8)के उपबंधों की ओर आकष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतया तथा सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं। और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''ए**यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (शिइयुल्ड कॉमर्शियल बैंक)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक: 13/01/2023 स्थानः भोपाल

स्वास्थ्य कारणों के चलते बेंगलुरु लौटे राहल द्रविड

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ स्वास्थ्य कारणों के चलते शुऋवार को तड़के कोलकाता स बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। इस दौरान टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ ने तिरुवनतपुरम के लिए उड़ान भरी। वह श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान टीम इंडिया के साथ मौजूद होंगे या नहीं, अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया

गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे मैच के दौरान उन्होंने ब्लड प्रेशर की शिकायत की थी।

उत्तर मध्य रेलवे G2

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (**ई-टेन्डरिंग**) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

| कार्य का नाम | ई-निविदा सूचना संख्या | अनुमानित लागत रु | अमानत राशि |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|
| | C. | CINCI V | VII41 |
| रईः कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पैसेंजर एमेनिटीज | झाँसी- | ∌ | ∌ |
| बेल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिर्कुलेटिंग एरिया | इन्जी0-सी- | 10271017.16 | 201400 00 |
| ट उरई रेलवे स्टेशन। | 2022-110 | 102/1017.16 | 201400.00 |
| <mark>नेविदा बन्द होने की तिथिः</mark> 09/02/2023 at 15 | 5.00 hrs. | | |
| 0 111 1 | | | |

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 10 माह

निविदा दिनांक 09/02/2023 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेब साइट www

<u>ireps.gov.in</u> पर देखें। 66/23(K

उत्तर मध्य

ई-प्रापण निविदा सचना संख्या 01/2022-23 दिनॉक 14.02.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक वि0.लो0.शेड झॉसी द्वारा निम्नलिखित मद वे लिये ई-प्रापण निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा खुलने की तिथि क्र0. मात्रा सं0. सप्लाई इंस्टालेशन और कमीशन ऑफ ट्राली माउण्ट हाई प्रेशर हॉट और कोल्ड वाटर जेट क्लीनिंग मशीन 01 54225126E 14.02.2023 एज पर टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन अटैच्ड एज एनेक्सचर - बी. इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर ट्रूक विथ हाईड्रोलिक साइड वॉल प्लेटफार्म और मोस्फीट कन्ट्रोलर एज पर 01 नग 02 54225323 14.02.2023

नोट :- उपरोक्त ई प्रापण निविदा का पुरा विवरण IREPS वेबसाइट http://www.ireps.gov.ir पर उपलब्ध है। 62/23(AN

f North central railways 🛾 www.ncr.indianrailways.gov.in 🛮 🗷 @CPRONCR 🌉 @northcentralrailwa

उत्तर मध्य रेलवे

स्पेसिफिकेशन अटैच्ड एज एनेक्सचर-ए

<u>ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना</u> भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी निम्नलिखित

G2

कार्य हेतु आनलाईन (**ई-टेन्डरिंग**) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

| कार्य का नाम | रूननावदा सूचना संख्या | लागत रू | राशि |
|---|--------------------------|------------|----------|
| झाँसी/ईस्ट - सप्लाई, इंस्टालेशन एंड कमीशनिंग, | झाँसी- | | |
| ऑपरेशन ऑफ़ इफ्लूएन्ट/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट | इन्जी0- | 7192100.12 | 143900.0 |
| ऑफ़ 81 केएलडी कैपेसिटी एट डिविजनल रेलवे | मुख्यालय- | | |
| हॉस्पिटल। | 2023-07 | | |
| | | | |

निविदा बन्द होने की तिथिः 08/02/2023 15:00 बजे

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 42 माह निविदा दिनांक 08/02/2023 को 15:00 **बजे** तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। बजे

पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेब साइट www 50/23(K

rth central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 🍸 @ CPRONG

पंजी. कार्यालयः ब्लॉक–7, रूम नं. 78, दीन दयाल आवास, कबीर नगर, रायपुर सीटी–492099 कार्पोरेट कार्यालयः मोनेट हाउस, ११,मस्जिद मोथ, ग्रेटर कैलाश पार्ट – ।।, नर्ईे दिल्ली–११००४८ दूरभाष : (91) 8770344104, ईमेल : isc_mind@monnetgroup.com, वेवसाइट : www. monnetgroup.com सीआईएन : एल51103सीटी1982 पीएलसी009717

वीडियो कान्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो - विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि जैसा कि असाधारण सामान्य बैठक ('ईजीएम') बुलाने की सुचना में निर्धारित किय गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के शेयर धारकों की असाधारण सामान्य बैठव बलाने की सचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन–देन करने के लिए एमसीए परिपन्न दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, , 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2021 और 08 दिसंबर, 2021 और 05 मई, २०२२ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य परिपन्न और सेबी द्वारा जारी परिपन्न 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (बाद में सामहिक रूप से "**एमसीए परिपत्र"** के रूप में संदर्भित) अनसार कंपनी के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक ('ईजीएमं') मंगलवार ०७ फरवरी २०२३ को दोपहर ०३:३० बजे एक सामान्य स्थान प सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, असाधारण सामान्य बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पैजीकृत हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ईमेल पते और मोबाइल नंबर अस्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए प्रस्तुत करें। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>http://www.monnetgroup.com/Notice-GM-mil.php</u> और स्टॉक एक्सचेंज यार्न बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। ईजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग/वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपर्न अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

मोनिन्ड लिमिटेड के लिये स्थान : दिल्ली तिथि: 13.01.2023 कंपनी सेक्रेटरी

उत्तर मध्य रेलवे

ई-प्रापण निविदा सूचना संख्या 01/2022-23 दिनांक 30.01.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से **वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक वि.लो. शेड झॉसी** द्वार निम्नलिखित मद के लिये ई-प्रापण निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्र. सं. | निविदा सं. | विवरण | मात्रा | निविदा खुलने की तिथि |
|-------------|---------------|---|--------|-------------------------|
| 1. | 54221283 | टॉगल स्विच सिंगल पोल डबल थ्रो 250 वोल्ट 10 ऐम्पीयर एज पर सी.एल. डब्ल्यू. स्पेसिफिकेशन CLW/ES/S-27 DRG.NO.CLW/ES/SK-1/S-27 | 150 नग | 30.01.2023 |
| 2. | 54225053C | प्रस्तु. NO. OLWIES/SR-1/S-2/ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ ऑयल फाईल्ड इनक्लोजर रेटिंग 2 केवीए, इनपुट 230 VAC, आउटपुट 24 VAC मेक/ब्रांड एम्प्राइज/ सनशाइन/बजाज विथ वारंटी/गारंटी सर्टिफिकेट। | 10 नग | 30.01.2023 |

नोटः उपरोक्त ई-प्रापण निविदा का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट <u>http://www.ireps.gov.in</u> पर उपलब्ध है। North central railways 🌌 @CPRONCR 📵 @north central railway 🌐 www.ncr.indianrailways.gov.in

माप्त. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्या पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल - 462003

फोन नं. : +91-755-4027100, 2774340/42

वेबसाइट : www.mpstdc.com

क्रमांक 004/यांत्रिकी/पविनि/23 दिनांक 12.01.2023 निविदा सूचना नं. एवं सिस्टम नं. 002/2023 STDC 244275 1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है कार्य का नाम :- संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का कार्य। कार्य की लागत राशि : रु. 11.49 लाख । (01 माह) । वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्युमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि 27.01.2023 समय सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

विक्रय सूचना दिनांक 11.01.2023 के.एस. ऑयल्स लिमिटेड (परिसमापन में) में संशोधन पंजीकृत कार्यालयः जीवाजी गंज, मुरैना–476001, मध्य प्रदेश सीआईएन: CIN: L15141MP1985PLC003171

यह शद्धिपत्र दिनांक 11.01.2023 के विक्रय नोटिस के सांतत्य में जारी किया जा रहा है. जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहित 2016 एवं उसके विनियम के तहत सामान्य रूप से जनता को दिए गए बिजनेस स्टैंडर्ड के अखिल भारतीय अंग्रेजी संस्करण औ हेंदी दैनिक राज एक्सप्रेस के मध्य प्रदेश संस्करण में प्रकाशित हुआ था, यह कि परिसमापक ई–नीलामी से ब<mark>्लॉक बी में निर्दिष्ट संप</mark>रि को ब्लॉक l से संशोधित किया जाता है जो 14 फरवरी 2023 को आयोजित की जानी थी। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक ए का अर्थ संशोधित समय–सीमाएं इस प्रकार हैं :

| THE STATE OF THE S | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| विवरण | मूल तिथि | संशोधित तिथि | | | | |
| – नीलामी की तिथि और समय | मंगलवार, 14.02.2023 दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच | शुक्रवार, 17.02.2023 दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच | | | | |
| र्চिच की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | शुक्रवार, २७.०१.२०२३ (शाम ५ बजे तक) | सोमवार दिनांक ३०.०१.२०२३ (भारतीय समयानुसार शाम ५ बजे तक) | | | | |
| । रोहर राशि जमा करने की | शनिवार, 11.02.2023 | .मंगलवार दिनांक 14.02.2023 | | | | |

विवरण युक्त पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://nclauctio

महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बिंदु 5 को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, धरोहर राशि जमा करने और प्रक्रिया में भाग लेने से पहले सर्भ नेयमों और शर्तों को अनिवार्य रूप से ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से संदर्भित किया जाना है। ब्लॉक ए, ऑनलाइन ई-नीलाग बोली फॉर्म, घोषणा और अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तों में क्या–क्या शामिल है, इसका पु

> के.एस. ऑयल्य के पंजी. सं.-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/1003 46 बी.बी गांगुली स्ट्रीट, 5वाँ तल,यूनिट नंबर-501, कोलकाता-70001

रथान : कोलकाता पंजीकृत ईमेल आईडी : ई : kuverma@gmail.com/liquidation.ksoils@gmail.com दिनांक : 14.01.2023 अभिहरतांकन के लिये प्राधिकरण (एएफए) – 11.12.2023 तक वैद

auctiontiger.net पर उपलब्ध है।

ई-नीलामी सूचना मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), झाँर्स भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) - झांसी द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों वे अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है।

| 3 | | | | | | एसेट्स डिटेल्स | | ई-नीलामी | ई-नीलाग | | | |
|---------------|--|--------|---------------------|---------|--|---|---|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| _ | | श्रेणी | | | | -2), ए (एन. एस. जी | | प्रारम्भ होने | समाप्त हे | | | |
| n ∛) | | | संख्या | | | एवं बी (एन. एस. जी | | की तिथि व समय | की तिश् व समय | | | |
| | | | | | | रू केटरिंग स्टॉल हेतु ई- | | व समध | व समध | | | |
| y | | | | स्टेशन | प्लेटफॉर्म | | स्टॉल सं. | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)छोरकितरफ | 01 (महिला) | | | | | |
| त | | | | ऐट | 2 | पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के सामने प्लेटफॉर्म के मध्य मे | 05 (स्वतंत्रता सेनानी/वार विडो/विडो ऑफ रेलवेमन) | | | | | |
| - | | | | बेलाताल | 1 | ओ. एफ. सी. रूम 1235/4 के सामने | 01 (दियांग) | | | | | |
| _ | | | | genener | | एफ. ओ. बी. 1235/5 के पास | 03 | | | | | |
| 0 | | | | | 1 | एस. एंड टी. ऑफिस के पास कानपुर छोर कि तरफ | 02 (महिला) | | | | | |
| <u>v.</u> | | | भरवा सुमेरपुर | 2 | सी. ओ. पी. के नीचे | 04 (स्वतंत्रता सेनानी/वार विडो/विडो ऑफ रेलवेमन) | दिनांक | दिनांक | | | | |
| () | | खानपान | JHS- CATG -03 | | | सी. ओ. पी. के पास कानपुर छोर कि तरफ | 06 (दियांग) | 27.01.2023 को समय- | को समय | | | |
| R | | | | कुलपहार | कंवड शह के पाल जिल्लामानी/वार सं. 01 के पास सेनानी/वार वीरांगना लक्ष्मीबाई विडो/विडो | 10:00 से | 12:30 ਜ | | | | | |
| | | | | | कवर्ड शेड के दूसरे विद्युत पोल के पास महोबा छोर कि तरफ | 03 | | | | | | |
| या | | | | | 1 | ओ. एच. ई. पोल सं. 1077/09 बीना छोर कि तरफ | 02 (महिला) | | | | | |
| क न, | | | | तालबहट | 2/3 | वाटर पोल 9 एवं 10 के मध्य | 04 | | | | | |
| 5 2 यों | | | | | | वाटर पोल 5 एवं 6 के मध्य | 06 (महिला) | | | | | |
| ार के | | | | | 4 | ओ. एच. ई. पोल सं. 1077/20 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) छोर कि तरफ | 08 | | | | | |

नोट- उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेवसाइट- www.ireps.gov.in के e auction module के माध्यम से की जाएगी। लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉग संख्या वे



Dated: 11.01.2023

पिया

ई-नीलामी सूचना

वरि. मण्डल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे. झाँर्स

| श्रेणी | केटलॉग | | | एसेट्स डिटेल्स | | ई-नीलामी | ई-नीलामी |
|--------|---------------|------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | संख्या | (एन.एस. | जी4), | | जी3), ए एवं बी न.जी5) केटेगरी तु ई-नीलामी | प्रारम्भ होने की तिथि व समय | समाप्त होने की तिथि व समय |
| खानपान | JHS- CATG- | स्टेशन | प्लेटफार्म | लोकेशन | स्टॉल सं. | दिनांक | दिनांक |
| | 04 | वीरांगना लक्ष्मीबाई | 6/8 | Cop पोल सं.37 और 39 के मध्य | 16 (अल्पसंख्यक) | 30.01.23 को समय- | को समय |
| | | मुरैना | 1 | सीओपी पोल सं. 1263/11-13 के मध्य आगरा छोर | 05 (दिव्यांग महिला) | 10:00 से | 12:30 ਜਰ |
| | | महोबा | 2/3 | सीओपी कॉलम सं. 5 एवं 6 के मध्य | 06 (अनु.जाति महिला) | | |
| | | उरई | 1 | आर.पी.एफ. पोस्ट के पास | 01 (अनु. जनजाति) | | |
| | | चित्रकूट | 1 | अधिकारी विश्राम गृह के बगल में | 04 (दिव्यांग) | | |
| | | | 2 | एफ ओ बी के नीचे | 08 (स्वतंत्रता सेनानी/वार विडो /रेलवे कर्मचारी की विडो/ विस्थापित) | | |
| | | डबरा | 1 | डीलक्स टॉयलेट के पास | 03 (अल्पसंख्यक) | | |
| | | | 2 | पोल सं.1182/19 के पास | 07 (स्वतंत्रता सेनानी/वार विडो /रेलवे कर्मचारी की विडो/ विस्थापित | | |
| | | | 1 | आर पी एफ पोस्ट के बगल में झॉसी छोर पर | | | |
| | | बबीना | | स्टेशन बिल्डिंग के सामने बीना छोर पर | 05 (स्वतंत्रता सेनानी/वार विडो/ रेलवे कर्मचारी की विडो/विस्थापित- (महिला) | | |
| | | | 2/3 | सीओपी पोल सं. 1102/16 के बलग में बीना छोर | 09 (अनु. जाति) | | |
| | | | 1 | टॉयलेट ब्लाक | 02 (गरीबी रेखा | | |

नोटः (1) उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेबसाइट- www.ireps.gov.ir के e-auction module के माध्यम से की जाएगी। (2) लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉ संख्या के अन्तर्गत उपलब्ध है।

एवं पैनल बिल्डिंग

के मध्य

बाँदा छोर पर

के नीचे)

06 (अन्. जातिः

म.प्र. माध्यम/108115/202

INDIAN OVERSEAS BANK Risalu Branch (VPO-Risalu, Panipat, Haryana-132104,

E-mail: iob3171@iob.in (APPENDIX IV)POSSESSION NOTICE (for immovable property) [(Rule 8(1))]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Indian Overseas Bank, under the Secularization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand notice dated 30.07.2020 calling upon the borrowers/mortgagors/guarantors Borrower: M/s. D M Industries Prop: Mr Jai Parvesh Saini S/o Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat,

Haryana - 132103 Guarantors:(1) Mr Jai Parvesh Saini s/o Sh Dharampal, Luxmi Nagar, Ujha Road, near sector 24, Panipat, Haryana - 132103 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,92,288.60 (Rupees Twenty Lacs Ninety Two Thousands Two Hundred Eighty Eight and Sixty Paisa only) as on 30.06.2020 plus further interest thereon at contractual rates and rests, charges etc till date of

realization within 60 days from the date of the said notice. 1) The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him, under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 23" October 2020.

2) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount Rs. 20,92,288.60 (Rupees Twenty Lacs Ninety Two Thousands Two Hundred Eighty Eight and Sixty Paisa only) as on 30.06.2020 plus further interest thereon at contractual rates and rests, charges etc till date of realization with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession is Rs. 20,68,283.41 (Rupees Twenty Lacs Sixty Eight Thousand Two Hundred Eighty Three and Forty One Paisa

only) payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment. 3) The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Property is an existing industrial building measuring 237.42 sq yds at two locations (site A and site B-details below) situated on land which is part of killa no 24//2min, 24//28(07), 29(0-18) moja taraf afganan, abadi known as luxmi nagar, near mahipal gas agency, inside MC limit, Panipat Boundaries: As per site A (186.85 sq yds) As per site B (50.77 sq yds), North : Street, Plot of sunder, South : Others property, Street, East: Property of Jagat Singh, Property of Jagmohan, West: Others plot, Property of Praveen Kumar

Place: Panipat, Date: 23.10.2020 Authorized Officer, Indian Overseas Bank

MOTILAL OSWAL

Motilal Oswal Asset Management Company Limited Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road,

Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 • Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email : mfservice@motilaloswal.com • CIN No.: U67120MH2008PLC188186

• Website: www.motilaloswalmf.com and www.mostshares.com

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information

Memorandum (KIM) of the Scheme(s) of Motilal Oswal Mutual Fund

Change in the address of Investors Service Center for the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund

Investors are hereby requested to take note of the following change in the address of Investors Service Center for the Schemes of MOMF with effect from October 24, 2020.

New Address Existing Address Location 1st Floor, Areekkal Mansion, Pannampilly Nagar, 41/418 E, 4th Floor, Chicago Plaza, Main Road, Opposite to Malayala Manorama, Kochi Rajaji Road, Kochi, Kerala - 682 035. Kochi, Kerala - 682 036.

This notice cum addendum forms an integral part of SID and KIM of the Scheme(s) of MOMF.

All other contents remain unchanged.

For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: October 26, 2020

Navin Agarwal Managing Director & Chief Executive Officer

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ZIM LABORATORIES LIMITED

Registered Office: Sadoday Gyan (Ground Floor) Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur - 440 013 CIN: L99999MH1984PLC032172, Website: www.zimlab.in



| | (| Quarter Ended | | | Half Year Ended | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Particulars | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 31.03.2020 | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | |
| Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax. | 8,803.3 637.77 | 7,047.59 439.05 | 6,779.07 (161.62) | 15,850.89 1,076.82 | 13,519.81 (405.39) | 27,773.92 6.86 | |
| Net Profit/(Loss) for the period after exceptional item and tax | 119.69 | 439.05 | (161.62) | 558.74 | (405.39) | 6.86 | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax Total Comprehensive Income for the period Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs.10 per share) | 119.48 82.49 1,624.19 | 328.08 318.29 1,624.19 | (60.88) (59.55) 1,618.07 | 447.56 400.78 1,624.19 | (52.23) (67.73) 1,618.07 | 329.66 363.78 1,618.07 | |
| Other Equity (excluding Revaluation Reserve) Earnings per share (not annualised) | | | | | | 13,764.03 | |
| a) Basic b) Diluted | 0.73 0.73 | 2.02 2.02 | (0.37) (0.37) | 2.75 2.75 | | 2.03 2.03 | |

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2020

Half Year Ended Year Ended Quarter Ended 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 **Particulars** Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited 6,733.69 15,622.10 13,419.28 27,431.97 8,644.90 6,977.20 ncome from Operations 512.55 (149.35) (148.74) Net Profit/(Loss) for the period before exceptional item and tax 387.60 900.15 (399.10)(148.74) (5.53)387.60 382.07 (399.10 Net Profit/(Loss) for the period after exceptional item and tax (149.35) (5.74)(48.61) 270.89 (45.95)174.06 Net Profit / (Loss) for the period after tax 276.63 (12.48)(60.06) 147.10 269.89 Total comprehensive income 2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30°

September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Standalone and Consolidated results for the guarter and half year ended on 30° September, 2020 are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.zimlab.in). The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective

meetings held on 26" October 2020. There are no qualifications in the limited review report issued for the quarter and half year ended 30" September 2020.

Place: Nagpur. Dated: 26 October, 2020

(Anwar S. Daud) Managing Director



GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

CIN: L21098UP2012PLC048300 Regd. Office: Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I , New Delhi-110020 Ph.:0591-2511171 Fax: 0591-2511242 E-mail: cs@genuspaper.com Website: www.genuspaper.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

| | (A | | STANDALONI | CONSOLIDATED | | |
|-----------|---|---|---|--|---|---|
| S. NO. | PARTICULARS | Quarter ended September 30, 2020 | Quarter ended September 30, 2019 | Half -year ended September 30, 2020 | Quarter ended September 30, 2020 | Half -year ended Septembe 30, 2020 |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited |
| 1 | Total income from operations | 8011.14 | 7669.19 | 11146.44 | 8011.14 | 11146.44 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 377.66 | 354.49 | -183.62 | 377.66 | -183.62 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 377.66 | 354.49 | -183.62 | 377.66 | -183.62 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 386.28 | 567.88 | -162.35 | 386.28 | -162.35 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 386.28 | 567.88 | -162.35 | 386.28 | -162.35 |
| 6 | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each) | 2571.26 | 2571.26 | 2571.26 | 2571.26 | 2571.26 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation | | | | | |

Diluted: Notes:

Reserve)

in Rs.)

Basic:

Place: Moradabad

Earnings Per Share (of Face value of

Re.1/- each) - (not annualised) (amount

Limited" incorporated in India on July 23rd, 2020.

The above unaudited standalone & consolidated financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on October 26th, 2020. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon. The Above unaudited standalone & consolidated financial results of the company have been prepared in

0.22

0.22

0.15

accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The Company has invested in wholly Owned Subsidiary company in the name of "Kailash Paper and Coke

-0.06

-0.06

(Kailash Chandra Agarwal)

For and on behalf of the Board of Directors

0.15

0.15

-0.06

-0.06

Managing Director & CEO DIN: 00895365



GULSHAN POLYOLS LIMITED Regd. Off.: 9th K.M. Jansath Road, Muzaffamagar - 251 001 (UP) Corporate Off. : G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092 Tel: 011-49999200, Fax: 011-49999202 CIN: L24231UP2000PLC034918

Website: www.gulshanindia.com, E-mail: cs@gulshanindia.com Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 2, 2020 at G - 81 Preet Vihar, Delhi - 110092, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2020 including other matters of the Company. The information contained in

Exchanges' website: www.nseindia.com and www.bseindia.com For Gulshan Polyols Limited

October 26, 2020

(Vijay Garg) Company Secretary

Registered Office: Plot No. 216, Sector-C, Urla Industrial Complex, Raipur-493221 (Chhattisgarh) Corp. Office: Monnet House, 11, Masjid Moth, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 (INDIA) Phone: +91 11 29218542-46; Fax: +91 11 29218541

M Monnet Industries Limited

this Notice is also available on Company's website www.gulshanindia.com and on the Stock

Email: isc_mind@monnetgroup.com; Website: www.monnetgroup.com CIN-L51103CT1982PLC009717 NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Company will be held on Tuesday, 17th November, 2020 at 12:30 P.M. through video conferencing ('VC') / other audio visual means('OAVM'), to transact the business as stated in the Notice of AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual

Report 2019-20 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on 16th October, 2020. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2019-20 is available on the website of the Company at www.monnetgroup.com as well as on the website of BSE at www.bseindia.com. The company has sent notice or AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 26th October, 2020. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The

instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending

the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ("e-voting")

Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting shall commence from Saturday, 14th November, 2020, at 09:00 a.m.

and end on Monday, 16th November, 2020 at 5:00 p.m. In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report 2019-20 and login details for e-voting. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/RTA email id.

For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-8 digit DPID + CLID). Name, client master or copy of Consolidated count statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to Company/RTA email id.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 10th November, 2020 to Tuesday, 17th November, 2020 (both

The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht Partner of M/s. Sanjay Grover & Associates (CPNo. 13700), failing him Ms. Priyanka, Partner at M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 16187) having address at B-88, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the evoting at AGM in a fair and transparent manner. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the

Questing (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Sarita Mote, NSDL through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990 or Mr. Amarjit, Senior Manager, MCS Share Transfer Agent Ltd., through email at admin@mcsregistrars.com or on Telephone No.: 011-41406149. To support green initiative, Members who have not registered their email addresses so far

AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked

or who want to update their email address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or MCS Share Transfer Agent Ltd. / Company (for physical holding) for receiving all communications electronically. By order of the Board of Directors

MONNET INDUSTRIES LIMITED Priya

Company Secretary

FORM No. CAA 2

(PURSUANT TO SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016) BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HRY OF 2020

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:

GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad

Dated: 26.10.2020

Place: New Delhi

Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1 SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad

Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/ APPLICANT COMPANY NO. 2 SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U70109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR

Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 TRANSFEROR COMPANY NO. 3/ APPLICANT COMPANY NO. 3

AND

RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085676) having its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad

Harvana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4 AND FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having

its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana -121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5

CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105)having its

registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Harvana – 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6 GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having

its registered office at Unit No 802, 803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7 NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED

CREDITORS OF VALUE OF RS. 50,000/- AND ABOVE OF THE CENTURY METAL RECYCLING LIMITED, TRANSFEROR COMPANY NO. 6 Notice is hereby given that by an order dated 9"October 2020("Order"), the Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT")has

directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of value of Rs. 50,000/- and above of the Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor Company No. 1") and Suvridhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") & their respective Shareholders ("Scheme"). In pursuance of the said order notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 6 will be held through Video Conferencing ("VC"), as under: S.N. Meetings of WebLink -CISCO WEBEX System Time Day and Date

| A-14- | meetings or | HEDENIN GIOGO HEDEN OFSTEIN | Lune | Day and Dat |
|-------|---|--|--------------------|------------------------------------|
| 300 | Secured Creditors of Transferor Company No. 6 | | 01:00 P.M [IST] | Saturday, 28th November 2020 |
| 2. | Unsecured Creditors of value of Rs. 50,000/- and above of the Transferor Company No. 6 | https://sunresolution.webex.com/su nresolution/j.php?MTID=md960a7d a613640f82237011a7fefb8dd | 02:00 Р.М [IST] | |

Companies Act, 2013 and Forms of Proxy can be obtained free of charge between 10:00 AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 6 at Unit No 802-803, 8th Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana121003. Pursuant to said Order, creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting.

he Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr. Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent

A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.

For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 6 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretarial@century.in, for receiving the abovesaid link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail.

Justice V.K. Jhanji (Retd.) Date: 26 October 2020 Place: Chandigarh Chairperson appointed for the aforesaid Meetings



CIN No.:L65922MH1989PLC054583

Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020. | Tel No.: 022- 43041900, Email.: corporate@gichf.com, investors@gichf.com | Website: www.gichfindia.com NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of our Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (with Limited Review) for the Second Quarter/Half Year ended 30" September, 2020.

Board Meeting Notice is available on the website of the Company www.gichfindia.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

For GIC Housing Finance Ltd Place : Mumbai

Nutan Singh Date: 27.10.2020 Group Executive & Company Secretary

MPDL Limited

(Formerly, known as Monnet Project Developers Limited) Registered Office: Plot No. 216, Sector-C, Urla Industrial Complex, Raipur-493221 (Chhattisgarh) Corp. Office: Unit No. 12, GF, Magnum Tower-1, Sector - 58, Gurugram, Haryana - 122011 (India) Phone: +91 11 29218542-46; Fax: +91 11 29218541; Email: isc_mpdl@monnetgroup.com; Website: www.monnetgroup.com CIN: L70102CT2002PLC015040 NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 17th November, 2020 at 02:30 P.M. through video conferencing ("VC") / other audio visual means("OAVM"), to transact the business as stated n the Notice of AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence o the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevan provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held

In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on 16th October, 2020. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2019-20 is available on the website of the Company at www.monnetgroup.com as well as on the website of BSE at www.bseindia.com. The company has sent notice of AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 26th October, 2020. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The

instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the

Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ("e-voting") Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence from Saturday, 14th November, 2020, at 09:00 a.m. and end on Monday, 16th November, 2020 at 5:00 p.m.

In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report 2019-20 and login details for e-voting. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by

email to Company/RTA email id. 2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-8 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested canned copy of Aadhaar Card) to Company/RTA email id. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain

closed from Tuesday, 10th November, 2020 to Tuesday, 17th November, 2020 (both days inclusive). The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht Partner of M/s. Sanjay Grover & Associates (CP No. 13700), failing him Ms. Privanka, Partner at M/s. Saniay Grover

& Associates (CP No. 16187) having address at B-88, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the evoting at AGM in a fair and transparent manner. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questing (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Pratik Bhatt, NSDL through

e-mail at pratikb@nsdl.co.in & evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990 or

Mr. Amarjit, Senior Manager, MCS Share Transfer Agent Ltd., through email at admin@mcsregistrars.com or on Telephone No.: 011-41406149. To support green initiative. Members who have not registered their email addresses so far or who want to update their email address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or MCS Share Transfer Agent Ltd. / Company (for physical holding) for receiving all communications electronically.

By order of the Board of Directors **MPDL Limited** (Formerly, Monnet Project Developers Limited)

Dated: 26.10.2020 Anurag Singh Rathore Place: New Delhi Company Secretary

FORM No. CAA 2

(PURSUANT TOSECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT. 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY APPLICATION CA(CAA)NO. 20 /CHD/HRY OF 2020 IN THE MATTER OF

THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF:

GRAND METAL RECYCLING PRIVATE LIMITED (CIN: U00331HR2005PTC086017) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana – 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 1/APPLICANT COMPANY NO. 1

SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: U67120HR1992PLC087012) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 2/APPLICANT COMPANY NO. 2

SANJIVANI NONFERROUS TRADING PRIVATE LIMITED (CIN: U70109HR2006PTC086175) having its registered office at Unit No 802-803 SSR

Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 3/ APPLICANT COMPANY NO. 3 RAMAYANA POLYMERS PRIVATE LIMITED (CIN: U25517HR2006PTC085676)

Haryana – 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 4/APPLICANT COMPANY NO. 4 FOREVER MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U22229HR2006PTC085674) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad

having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad

CENTURY METAL RECYCLING LIMITED (CIN: U74899HR1994PLC086105) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad Haryana - 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 6/APPLICANT COMPANY NO. 6

Haryana – 121003 ... TRANSFEROR COMPANY NO. 5/APPLICANT COMPANY NO. 5

GRAND METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN: U00337HR2005PLC085675) having its registered office at Unit No 802-803 SSR Corporate Park Sec 27B Faridabad ... TRANSFEREE COMPANY/APPLICANT COMPANY NO. 7 Harvana - 121003 NOTICE OF THE MEETING OF THE SECURED CREDITORS AND UNSECURED

TRANSFEROR COMPANY NO. 3 Notice is hereby given that by an order dated 9"October 2020("Order"), the Chandidarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal" or "NCLT")has directed meetings to be held of the secured creditors and the unsecured creditors of

CREDITORS OF SANJIVANI NON FERROUS TRADING PRIVATE LIMITED,

Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company 3"), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangementamongst Grand Metal Recycling Private Limited ("Transferor" Company No. 1") and Suvridhi Financial Services Limited ("Transferor Company No. 2") and Sanjivani Non Ferrous Trading Private Limited ("Transferor Company No. 3") and Ramayana Polymers Private Limited ("Transferor Company No. 4") and Forever Multimedia Private Limited ("Transferor Company No. 5") and Century Metal Recycling Limited ("Transferor Company No. 6") and Grand Metal Industries Limited ("Transferee Company") and their respective Shareholders ("Scheme"). In pursuance of the said order, notice is hereby given that meeting of the secured creditors and the unsecured creditors of the Transferor Company No. 3 will be held through Video

Conferencing ("VC") as under: S.N. Meetings of WebLink -CISCO WEBEX System Time Day and Date

| Saturday, 28th November 2020 | 10100 | solution.webex.com/su php?MTID=m9a60fea4 8a8e43c97f4e7 | of Transferor | 1. |
|------------------------------------|------------------------|---|---|--------|
| | 11:00 A.M. [IST] | solution.webex.com/su php?MTID=m76ea4b4 e7ea6b2cef4c962 | Creditors of | 2. |
| | A.M. [IST] | php?MTID=m76ea4b4 e7ea6b2cef4c962 | Creditors of Transferor Company No. 3 | Serve. |

AM to 12:00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferor Company No. 3 at Unit No 802-803, 8"Floor, SSR Corporate Park, Sec 27B, Faridabad, Haryana121003. Pursuant to said Order, creditors shall be entitled to vote either in person or through proxy, provided all proxies in the prescribed form are deposited at the aforementioned registered office not later than 48 hours before the meeting. The Hon'ble Tribunal has appointed Justice V.K. Jhanji (Retd.), as the Chairperson, Mr.

Viren Sibal, Advocate as alternate Chairperson and Mr. Rohit Garg, Chartered Accountant as the Scrutinizer for the said meetings including any adjournments thereof. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal

A link of aforesaid Meetings with WebLink Login details has been sent in the individual notices to the Secured Creditors and the Unsecured Creditors.

For all queries connected with the facility for Video Conferencing or Voting at the Meeting, please contact Mr. Pradeep Singh, Authorized Representative of the Transferor Company No. 3 through mobile No. 9871006839 or e-mail secretarial@century.in, for

receiving the abovesaid link/ Meeting Login Id and password on the mobile/e-mail. Justice V.K. Jhanji (Retd.) Date: 26 October 2020 Chairperson appointed for the aforesaid Meetings Place: Chandigarh

PUBLIC NOTICE

We hereby inform that General Power of Attorney dated 20-09-1999 executed by Mr. Harjit Singh Bhatia in Favour of Mrs. Usha Nischal in respect of DDA MIG Flat No. 55C, Pocket A-14, Kalkaji Ext. New Delhi-110019 has been lost. If anyone gets the same, please contact Mrs. Bimla Devi / Mr. Gautam Gupta (9999935471)

ANUH PHARMA LIMITED CIN: L24230MH1960PLC011586

Regd. Office: 3-A Shivsagar Estate, North Wing Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018 Phone: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600 Email: anuh@sk1932.com:

> Website: www.anuhpharma.com NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Friday. November 06, 2020, inter alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company at www.anuhpharma.com as well as on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com. For Anuh Pharma Limited

Bipin N. Shah Date: October 26, 2020 Managing Director Place: Mumbai (DIN: 00083244)

MULTISPECIALITY HOSPITAL LTD CIN: L85110TN1990PLC019545 Regd. Office: New No.70 (Old No.149), Luz

CHENNAI MEENAKSHI

Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004 Ph: 044-42938938, Fax: 044-24993282, Email: cmmhospitals@gmail.com, Web: www.cmmh.in NOTICE NOTICE is hereby given Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

No.70, Old No.149, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004 to consider, interalia the Unaudited Financial Results for the Quarter/Half year ended September, 2020. This intimation is also available on the Company's Website at www.cmmh.in and

Bombay Stock Exchange at

Membership No.F3850; Mobile No.9283112100

Requirements) Regulations, 2015 that a

meeting of the Board of Directors of the

Company will be held at 4.00 p.m on

Wednesday, November 11, 2020 at the

Registered Office of the Company at New

www.bseindia.com. for Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd., R. Deenadayalu Place: Chennai Company Secretary & Date: October 26, 2020. Compliance Officer

Form No. INC-26 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government. Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of **AVANTIKA STONES PRIVATE LIMITED** CIN: U14294DL2017PTC311296 having its Registered Office at FARM NO. 4 GATE NO. 3, DERA MORE, NEAR IOC PETROL P KHASRA NO.40,

VILLAGE BHATI, MAIN CHHATERPUR ROAD,

NEW DELHI-110074Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th October, 2020 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the 'State of Madhya Pradesh"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of he company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex. New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at

the address mentioned below:-FARM NO. 4 GATE NO. 3, DERA MORE, NEAR IOC PETROL P KHASRA NO.40, VILLAGE BHATI, MAIN CHHATERPUR ROAD, **NEW DELHI-110074** For & on behalf of Applicant

> **AVANTIKA STONES PRIVATE LIMITED VISHNU KUMAR SINGHAL**

Date: 27.10.2020 DIN: 03541691 Place: New Delhi East India Udyog Limited

CIN:U31102DL1966PLC329545

In the matter of Section 13(4) of

Companies Act, 2013

Regd. Office: B-41, Maharani Bagh, New Delhi - 110065 E-mail: cs@eiul.in Before the Central Government Through the office of the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And in the matter of **East India Udyog Limited**

having its Registered Office at B-41. Maharani Bagh, New Delhi-110065 **Applicant Company PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given to the General Public

that East India Udyog Limited (the

Company) proposes to make an Application to the Central Government through the office of the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, under section 13 of the Companies Act, 2013, read with Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, and other applicable provisions, if any, seeking confirmation/approvalof alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed in the Extra

ordinary General Meeting held on Monday the 26thOctober, 2020, to enable the Company to change its registered office from NCT of Delhi to State of Uttar Pradesh. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Company maydeliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit, stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt.DeenDayalAntyodayaBhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003, within 14 days from the date of publication of this notice, with a copy to the Applicant Company at its Registered Office

> For East India Udyog Limited Mohit Saraogi

address mentioned above.

Date: 26thOctober, 2020 Director Place: New Delhi DIN: 03600877

Date : October 26, 2020 financialem epam in New Delhi

approval of the Hon ble Tribunal.